## संभालता है श्याम । By Kumar Deepak

जब कोई ना समभाले संभालता है श्याम अजी कोई ना कोई रास्ता निकालता है श्याम

ऐसा कोई काम नहीं है श्याम धणी मेरा कर नहीं सकता ऐसा दामन बना नहीं जिसे श्याम धणी मेरा भर नहीं सकता हो चाहे जैसी किस्मत संवारता है श्याम अरे कोई ना कोई रास्ता निकालता है श्याम

थोड़ा वक़्त निकल जाने दे देवो का सरताज बनेगा जो ना माने इसकी हुकूमत दर दर का मोहताज बनेगा जनम जनम का रास्ता सुधारता है श्याम कोई ना कोई रास्ता निकालता है श्याम

मंदिर के पत्थर पत्थर पर लिखा हुआ हारे का सहारा मंदिर बहुत बनेंगे लेकिन बने ना मंदिर ऐसा दोबारा खुद मंदिर की नज़रें उतारता है श्याम अरे कोई ना कोई रास्ता निकालता है श्याम

बनवारी इसकी भक्ति से विपदा सारी पल में टलेगी श्याम नाम का मंत्र सुना दे नैया अपने आप चलेगी जाद्गारी मोरछड़ी संभालता है श्याम अरे कोई ना कोई रास्ता निकालता है श्याम

 $\frac{\text{https://bhaktivandana.com/lyrics/\%e0\%a4\%b8\%e0\%a4\%82\%e0\%a4\%ad\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%b2\%e0\%a4\%ad\%e0}{e0\%a4\%be-\%e0\%a4\%b9\%e0\%a5\%88-\%e0\%a4\%b6\%e0\%a5\%8d\%e0\%a4\%af\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%be-by-kumar-deepak/}$